advertising copy, it is not possible to verify its

contants. The Indian Express (P) Limited cannot

be held responsible for such contents, nor for any

loss or damage incurred as a result of

transactions with companies, associations or

individuals adversing in its newspapers or

Publications. We therefore recommend that

readers make necessary inquiries before sending

any monies or entering into any agreements with

advertisers or otherwise acting on an

advertisement in any manner whatsoever.

(A/c No.) L9001060118354802

Mortgagor)

Place: Delhi

4

9

9

0

0

all

(Compromises,

applicable provisions

PRIVATE LIMITED

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW

TRIBUNAL, CHANDIGARH BENCH

COMPANY PETITION NO: CP(CAA)-

10/CHD/HP/2021

Connected with

COMPANY APPLICATION CA (CAA)-

37/CHD/HP/2020

In the matter of Companies Act, 2013

In the matter of Sections 230 to 232 of the

Companies Act, 2013 read with Companies

Amalgamations) Rules, 2016 and other

In the matter of Scheme of Arrangement

Between:

YAMUNA COMMERCIAL PRIVATE LIMITED

PSYCHOTROPICS LEASING AND FINANCE

Their Respective Shareholders and Creditor

NOTICE OF HEARING PETITION

A Company Petition No.- CP(CAA)- 10/CHD/

HP/2021 connected with CA (CAA)-37/CHD/

HP/2020 under Section 230 to 232 of the

Companies Act, 2013 ("Petition") for an order

sanctioning the Scheme of Arrangement and

Amalgamation between YAMUNA COMMERCIAL

PRIVATE LIMITED ("APPLICANT COMPANY

1") AND NVS BUILDERS PRIVATE LIMITED

("APPLICANT COMPANY -2") AND

PSYCHOTROPICS LEASING AND FINANCE

PRIVATE LIMITED ("APPLICANT COMPANY -

3) having their Registered Office at # Plot No.

17, Sector 20-A, Faridabad, HR -121001 and

their respective shareholders and creditors, was

presented by Applicant Companies which was

heard on 13th August 2021 in which the Order

was passed on 20th September 2021 and the

Petition is fixed for hearing before the National

Company Law Tribunal, Chandigarh Bench

Any person desiring of supporting or opposing

the Petition should send to the Petitioner/

Applicant Company's advocate at the address

mentioned below, a notice of his/her intention signed by him/her or his/her advocates, with his/

her name and address, so as to reach the

Petitioner Company's advocate and the NCLT

Bench, Chandigarh on or before the date fixed

for hearing the Petition. Where he seeks to

oppose the petition, the grounds of opposition

or a copy of his/her affidavit shall be furnished

A copy of the petition will be furnished by the

Petitioner Company's advocate to any person

requiring the same on the payment prescribed

SCO-186-188, Sector 17, Chandigarh-160017

Counsel for the Petitioner Company

SHARMA SARIN AND ASSOCIATES

Ph. No: 98154-35315, 98146-85649

Sharmasarin.legal@gmail.com

P.D. Sharma, PCS

GS Sarin, PCS

(FCS 2285, CP NO 2692)

(FCS 4025, CP NO 2751)

along with such notice.

charges for the same.

Place: Faridabad

Date: 01.10.2021

financialexp.ep

('NCLT'), on 03rd December 2021.

NVS BUILDERS PRIVATE LIMITED

Arrangements and

(Applicant Company No-1)

(Applicant Company No-2)

(Applicant Company No-3)

Dated: 01.10.2021

0

М

Sunil Kumar (Borrower), VEERPAL SINGH (Co-

Borrower), SMT. RESHAM DEVI (Co-Borrower &

Date: 30-Sep.-2021

275 shares of Torrent Power Ltd. under Folio No. 0012059 Shares Certificate No. 12059 with Distinctive Nos. at 43317539

to 43317813. I have lost the above Share Certificates and they were not annexed with any transfer deed.

Ltd Finder may contact 9818366226

l Poonam Bakhru have lost

Folio No. 0000622

From To 4277 to 583211 584210 4286



All that part and parcel of residential/commercial property Land/ 25-Sep-21

Authorised Officer AU Small Finance Bank Limited

Folio

No.

104792

148092

148295

157630

157395

Place: Gurugram

Date: 30/09/2021

Building/ Structure and fixtures situated at Property Situated At Waka

Muja Ballabgarh, Khasra No. 88, Kill No. 6(8-0), Street No. 9, Near D. k

Medical Store, Shubhash Colony, Dist. Ballabgarh, Faridabad

Distinctive No of Share 1000

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra एक परिवार एक बैंक

branch(es).

0120-2402662.

Mr. Rajiv Jain

Defendants.

FRIDAY, OCTOBER 1, 2021

Approx. Carpet

Area of Premises

(1000sq. ft. - 1300 sq. ft.)

Date: 01.10.2021 Place: Noida

Raj Petro Specialities Pvt. Ltd.

neard and determined in your absence.

Morepen Laboratories Limited

(CIN: L24231HP1984PLC006028)

Regd. Off.: Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, H.P. - 173 205

Tel: +91-1795-266401-03, 244590, Fax: +91-1795-244593

Website: www.morepen.com, E-mail: investors@morepen.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

NOTICE is hereby given that the following Share Certificate(s) of the Company have

been reported lost or misplaced or stolen and the registered shareholder(s) therefore

To

362715548

411736611

411942965

421796026

421528260

Any person(s) who have any claim in respect of the said share certificates should

lodge such claim with the Company at its registered office within 15 days of the

publication of this notice, after which no claim will be entertained and the Company

will not be responsible for any loss and the Company will proceed to issue duplicate

share certificates. The public is hereby cautioned against purchasing or dealing in

Distinctive No.

of Shares

has requested for issue of duplicate share certificate(s):

From

362714753

411735949

411942303

421795262

421527229

any way, with the above mentioned shares certificate(s).

Share

Certificate No.

15811

59111

59314

68649

68414

Mr. Rajiv Jain, Proprieter of Maharaj Electricals

E-746, Phase VIII, Focal Point, Ludhiana 141010, Puniab

Noida Zonal Office

Joy Tower, 2[™] Floor, Phase-2, C Block.

Industrial Area, Sector 62, Noida,

Uttar Pradesh 201301

Zonal Manager

S.C.S. No. 69/2015

Superintendant

Civil court, (Sr.Dn.)

Dadra and Nagar Haveli,

Name of

Shareholder(s)

BIMLASHARMA

NKSHARMA

ZAINULABEDIN

JUZER JAVI

SHAMIM JUZER JAVI

SHAMIM JUZER JAVI

JUZER MOHSIN JAVI

RISHI P SHROFF

PRADIPTSHROFF

NIRAJ P SHROFF

PRADIPTSHROFF

Company Secretary

For Morepen Laboratories Limited

Plaintiff Adv

H.K.Bhandari

Defendant

PREMISES REQUIRED ON RENT

Bank of Maharashtra invites offers from owners/POA holders of premises strictly

having permission from Local/Govt. authority for commercial activities for its

The proposed premises should be preferably at ground floor (with sufficient parking

place) on lease rent basis for opening a branch along with ATM room with separate

entrance. The premises should have adequate power load and provision of other

infrastructural requirements as per Bank's requirements and specifications. The

premises should be ready for possession or to be ready within 10-15 days as per

Bank's requirement. The interested parties/ persons should submit their offers on the

Bank's prescribed formats of "Technical Bid" and "Commercial Bid" respectively in

wo separate sealed envelopes super-scribing "Technical Bid" /"Commercial Bid"

respectively upto 05.00 PM on 14/10/2021 in the office of Zonal Manager, Bank of

Maharashtra, Noida Zonal Office Joy Tower, 2nd Floor, Phase-2 C Block, Industrial

Area, Sector 62, Noida, Uttar Pradesh 201301. These formats can be obtained in

person from above office during office hours and also can be downloaded from Bank's

website www.bankofmaharashtra.in under "Tender" section along with this tender

advertisement. The Bank reserves the right to cancel/reject any offer without assigning

the reason thereof. No brokerage will be paid. Incomplete and delayed proposals will

not be considered. For further details contact us at gad noi@mahabank.co.in,

Summons for settlement of Issues, (O.V.R.1,5)

IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE, [S.D.]

DADRA AND NAGAR HAVELI, SILVASSA

Versus

WHERE above named plaintiff has suit against you for [as per attached copy of plaint]. You are

hereby summoned to appear in this court persons or by a pleader duly instructed, and able to

answer all material question relating to the suit, or who shall be accompanied by some person

able to answer all such question, on The 12/10/2021 at 11.00 o'clock in the forenoon, to answer

the claim(and further you are hereby directed to file on that day a written statement of your

defence and to produce on the sad day all document in your possession or power upon which you

base your defence or claim for set-off counter-claim and where you rely on any other document

whether in your possession or power or not, as evidence in support of your defence or claim for

set-off or counter-claim you shall enter such documents in a list to be annexed to the written

SEAL

No. of

Shares

796

663

663

765

1032

Given under my hand and seal of the court, on this 24/08/2021.

Take note that, in default of you appearance on the day before mentioned, the suit will be

Location

1. Shamli (U.P.)

2. Mainpuri (U.P.)

FINANCIAL EXPRESS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED (CIN: L74899DL1986PLC023202)
Registered Office: D-188, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-110020 Tel.: +91 11 4733 4100 Fax: +91 11 2681 1676, Email: investorrelations@shardamotor.com Website: www.shardamotor.com

Pursuant to Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations. 2015, and other applicable laws, if any, this is to inform you that the Trading Window shall remain closed from Friday. October 1, 2021 till 48 hours of the declaration of Un-audited Financial Results of the company for the Second (2nd) Quarter and half year ended September 30, 2021, for all connected persons dealing in the Company's shares. Therefore, none of the connected persons of the company shall deal in the company's shares during this "Prohibited Period".

financial results for the Second (2nd) Quarter and half year ended September 30, 2021 shall be intimated in due course.

be accessed on the website of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and

For Sharda Motor Industries Limited

Place : Delhi

'Making, Assembling and Modification of Dummy bogie of Name of the Work Modifying Casana type Bogies'

Last Date & Time of Submission of 21.10.2021 (11:00 Hrs.) tender bid of tender Date & Time of opening of tender document 21.10.2021 (After 11:00 Hrs. Website particulars where complete details of www.ireps.gov.in tender documents can be seen:

(ii) For all terms and conditions please refer tender document. (iii) No manual offers are acceptable. (iv) Cost of tender document and Earnest money will be acceptable through net

No.: 230-TRS-GZB-2020-21-13 Dated: 29.09.2021

Phase-III, Old Ishwar Nagar, New Delhi-20, Tel.: 011-40551200, Fax No.: 011-40551281

in the Securities of the Company shall remain closed from Friday, October 01, 2021 for

the Directors, Designated Employees, Insiders and their immediate relatives till 48 hours after the un-audited Financial Results for the 2nd guarter / 6 months ended on Septembe 30. 2021 is made public.

the Company during the period when Trading Window is closed. By Order of Board of Directors

Dated: September 30, 2021

Place: New Delhi

Garima Pan **Company Secretary**

Tel.: 011-25888500, Email: WestPatelNagar.NewDelhi@bankofindia.co.in Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Bank of India under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

29.06.2021 calling upon the borrower Mr. Jay Prakash to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 13,26,210.89/- in words (Rupees Thirteen Lakhs Twenty Six Thousand Two Hundred Ten and Paisa Eighty Nine) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and

the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 27th Day of September of The Year 2021.

The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of

The borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of the section 13 of the

Act, in respect of time available, to redeem the secured asset. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY One residential Built up second floor up to ceiling level without roof and terrace rights, with all its fixtures and fittings fitted thereon, bearing the property number

474 – A/1 and 475-480, measuring area 62.707 sq mtrs., i.e. 75 Sq. Yds., Out of Khasra Number 642, situated in the area of village Chandrawali Alias Shahdara, in the abadi of Circular Road, Illaga, Shahdara, Delhi-110032, with all the common facilities such as common staircase, passage, and entrance from main gate shall be common with others from the ground floor onward, as well as the vendee shall be free to use the roof/terrace of the last storey only for installation, repairing, and maintenance of water tank together with proportionate, impartial, indivisible, undivided ownership

Place: New Delhi

Authorised Officer: Bank of India

Chief Manager

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058

Phone: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044 E-mail: leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website: www.kangrabank.com APPENDIX IV

[See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE

(For immovable property)

The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd." Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058 having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, under

The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated: 09-01-2019, calling upon the borrower namely Sh. Manish Matlotia S/o. Sh. Prakash Chand Matlotia, R/o. B-17, Golden Park, Shiv Puri Extn. Krishna Nagar, Delhi-110051 and calling upon the Mortgagor Smt. Monika Matlotia W/o. Sh. Manish Matlotia R/o. B-17, Golden Park, Shiv Puri Extn., Krishna Nagar, Delhi-110051, to repay the amount mentioned in the notice being ₹ 40,20,131/- (Rupees Forty Lakhs Twenty Thousand One Hundred Thirty One Only), together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of The above mentioned borrower&mortgagor having failed to repay the amount, notice is

hereby given to the borrower& mortgagor and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 29th. day of September 2021. The borrower&mortgagorin particular and the public in general is hereby cautioned not to

deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", for an amount of ₹ 40,20,131/ together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount. The borrower&mortgagor attention is also been invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets &

Enforcement of Security InterestAct, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset. DESCRIPTION OF THE PROPERTY

The property under All the part and parcel of the PROPERTY BUILT-UP FIRST consideration is FLOOR OF PROPERTY BEARING NO.B-17, CONSTRUCTED Residential first ON PLOT NO.1B/4, DDPA NO.E-12614, MEASURING LAND floor area measuring AREA 83.61, SQ. MTRS. i.e., AREA 100 SQ. YDS., AND ITS 100 Sq.Yds. PLINTH/COVERED AREA 75 SQ. MTRS. UPTO THE EXTENT

> OF CEILING LEVEL (i.e. neither including its upper ground floor nor its upper stories, except staircase, entrance, main gate, passage, one car and one scooter parking in stilt floor, rights to install/repair water tank, TV Antenna, on roof of top floor, proportionate rights in the land underneath and impartiable things which shall remain as common), CONSISTING OF THREE ROOM SET, FITTED WITH ELECTRICITY AND WATER TAP WITH THEIR METERS, OUT OF KHASRA NO.10/19, SITUATED IN THE LAYOUT PLAN OF GOLDEN PARK, SHIV PURI, IN THE AREA OF VILLAGE

KHUREJI KHAS, ILLAQA SHAHDARA, DELHI-110051. Falling under the Registration of Sub-Registrar-VIII, New Delhi. Bounded as under :-: GALI,

PROPERTY OF OTHERS. PROPERTY NO. B-3.

The date of the Meeting of Board of Directors of the Company for approval and declaration of the The said notice is also available on the Company's website www.shardamotor.com and may also

www.nseindia.com.

Date: 30th September 2021

Nitin Vishnoi **Executive Director & Company Secretary**

NORTHERN RAILWAY E-TENDER NOTICE

Sr. DEE-TRS-GZB acting for and on behalf of President of India invites E-Tender against Tender No. 230-TRS-GZB-2020-21-13. The details are as under-

Approximate Cost of work Note: (i) The tenderer/s must be registered on the Indian Railway E-Procurement system (IREPS) site i.e. www.ireps.gov.in for participating in the e-tender system.

banking or payment gateway only. 2222/21

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

CORDS CABLE INDUSTRIES LIMITED CORDS CIN L74999DL1991PLC046092

Regd. Off.: 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg Near Okhla Industrial Area

Website: www.cordscable.com, E-mail: ccil@cordscable.com NOTICE Pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and Company's Code for prevention of Insider Trading, the Trading window for dealing

Accordingly, all designated persons, Directors, promoters, persons acting in concert employees of the Company along with their respective immediate relatives, persons having contractual and fiduciary relation with the Company including but not limited to Auditors, accountancy firm, law firms, analysts, consultants, etc., assisting or advising the Company, shall not involve in any transaction for dealing/trading in the securities of

For Cords Cable Industries Limited

WEST PATEL NAGAR BRANCH, 7/16, West Patel Nagar, New Delhi-110008;

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI POSSESSION NOTICE (for Immovable property) APPENDIX-IV [See rule-8(1)

Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated

India for an amount Rs. 13,26,210.89/- and interest thereon.

rights of the land thereunder. Date: 27.09.2021

CANARA ROBECO

DADRA AND NAGAR HAVELI, SILVASSA

Raj Petro Specialities Pvt. Ltd.

Versus

Muskan Power Infrastructure Ltd.,

hereby summoned to appear in this court persons or by a pleader duly instructed, and able to answer all material question relating to the suit, or who shall be accompanied by some person able to answer all such question, on The 12/10/2021 at 11.00 o'clock in the forenoon, to answer the claim[and further you are hereby directed to file on that day a written statement of your defence and to produce on the sad day all document in your possession or power upon which you base your defence or claim for set-off counter-claim and where you rely on any other document whether in your possession or power or not, as evidence in support of your defence or claim for set-off or counter-claim you shall enter such documents in a list to be annexed to the written

heard and determined in your absence. Given under my hand and seal of the court, on this 24/08/2021. By order.

SEAL

Civil court, (Sr.Dn.) Dadra and Nagar Haveli Silvassa

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) (As per Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Tata Capital Financial Services Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and

Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 24.05.2021 as below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice. The Borrowers, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken Possession of the

13(4) read with Rule 8 of the said Act.

interest th	ereon and penal interest, charges, costs etc. from	date of demand n	otice.
Loan Account No.	Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/ Legal Representative(s)	Amount as on dated	Date of Symbolic Possession
E746770	1. DIMPLE CHOPRA AND 2. KIRAN CHOPRA	Rs.	00 00 0004

THE ABADI OF WEST PATEL NAGAR, DELHI WEST PATEL NAGAR, DELHI-110008, MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN RELINQUISHMENT DEED, EXECUTED IN FAVOR OF SHRI DIMPLE CHOPRA. Date: 01.10.2021 Sd/- Authorized Officer

Plaintiff Adv H.K.Bhandari

Defendant

Take note that, in default of you appearance on the day before mentioned, the suit will be

TATA 7th Floor, Videocon Tower, Jhandewalan Extension, Block-E, Delhi - 110055

property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section

Loan Account	Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/	Amount	Date of Symbolic
with the prop Tata Capital	ers, in particular, and the public in general, a perty and any dealings with the property will I Financial Services Limited, for an amou eon and penal interest, charges, costs etc. fro	l be subject to the ount referred to below	charge of the walong with

5716778 | BOTH r/o- HOUSE NUMBER 32/23, BLOCK 61,49,822.49/- 29.09.2021 32, WEST PATEL NAGAR, DELHI- 110008 as on 20.05.2021 DESCRIPTION OF SECURED ASSETS/IMMOVABLE PROPERTIES: ENTIRE THIRD FLOOR OF HOUSE NUMBER 32/23, AREAMEASURING 100 SQ YARDS, SITUATED IN

For Tata Capital Financial Services Limited Place: DELHI

Canara Robeco Mutual Fund Investment Manager: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Construction House, 4th Floor, 5, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001. Tel.: 6658 5000 Fax: 6658 5012/13 www.canararobeco.com CIN No.: U65990MH1993PLC071003

in the Key Personnel of Canara Robeco Asset Management Company Ltd:

Ms. Ennette Fernandes has been appointed as 'Fund Manager - Equities' of Canara Robeco Asset Management Company Ltd. with effect from 27th September, 2021. Her details are as under:

[1977299] SC 10004005.	Ms. Ennette 36 years/PGDBN Fernandes (Finance)	Total experience - 12 years Details: Tata Asset Management Ltd. Assistant Fund Manager (April 2018 to September 2021 Research Analyst (January 2014 to March 2018) Phillip Capital (India) Pvt Ltd.
		Phillip Capital (India) Pvt Ltd. Research Analyst (April 2011 to December 2013) Research Associate (April 2009 to March 2011)

changes in the Fund Management Responsibilities of the schemes of CRMF with effect from 1st October, 2021:

Scheme Name New Fund Manager Existing Fund Manager Canara Robeco Consumer | Mr. Shridatta Bhandwaldar (1) Ms. Ennette Fernandes Trande Fund

Canara Robeco Equity Hybrid Fund	For Equity Portfolio: Mr. Shridatta Bhandwaldar For Debt Portfolio:	(1) Ms. Ennette Fernandes (2) Mr. Shridatta Bhandwaldar
	Mr. Avnish Jain	For Debt Portfolio:
	THI. AVIISH JUN	Mr. Avnish Jain

Information Document ("SID") and Key Information Memorandum ("KIM") of the Scheme(s) of CRMF as

amended from time to time. Unit holders are requested to visit www.canararobeco.com to claim their Unclaimed Redemption & Dividend amounts and follow the procedure prescribed therein.

Authorised Signatory

New Delhi

EAST

WEST

NORTH

SOUTH : GALI.

DELHI. DATED: 29.09.2021

HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58.

(HARISH SHARMA)

AUTHORISED OFFICER

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.

Date: 30-09-2021

Place: Mumbai

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED (A SCHEDULED COMMERCIAL BANK) Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

APPENDIX IV [SEE RULE 8(I)] POSSESSION NOTICE Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) under the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act, 2002 (54 of 2002)] and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 3

of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date as mentioned below calling upon the borrowers to repay the amount mentioned in the said notice within 60 days from the date of receipt of the said notice as per the details given in below table: Date of Possession Taken Name of Borrower/Co-Borrower/ 13(2) Notice Date & Amount **Description of Mortgaged Property** Mortgagor/Guarantor / Loan A/c No. (A/c No.) L9001060115707447 All that part and parcel of residential/commercial property Land/ 25-Sep-21 24-Jun-21 Vanita Bhatia (Borrower), Ranjit Bhatiya (Co-Rs. 1711250/-Building/ Structure and fixtures situated at Wz-47, Plot No. 228, Khasra Borrower & Mortgagor) Rs. Seventeen Lac Eleven No.29, Vill- Nangli, Jalib, T.F. Gali No.14, Krishnapuri, Tilak Nagar, West Thousand Two Hundred Fifty Delhi, 110018 Admeasuring 100 Sq.Yrd East: Gali, West: Gali, North: only as on 24-Jun-21 Plot No. 226, South: Portoin, Of Oters Land (A/c No.) L9001060100982091 23-Apr-21 All that part and parcel of residential/commercial property Land/ 25-Sep-21 BRAHAM PAL (Borrower & Mortgagor), SMT. Rs. 2217192/-Building/ Structure and fixtures situated at Residential Plot No-c-93, Rs. Twenty Two Lac Seventeen Block-c, Khasra No. 1951, Vaka Sivana Mouja, Sanjay Gram Colony, Distgurgaon, Harvana Ademasuring 119 Sq. Yrd, East: Property of C96, West Thousand One Hundred Ninety Two Only as on 02-Apr-21 : Other Property, North : Other Property, South : Road 20 Ft 23-Apr-21 All that part and parcel of residential/commercial property Land/ Rs. 1333982/-Building/ Structure and fixtures situated at Khasra.no.246/18(8-0) Ka Rs. Thirteen Lac Thirty Three 41/480, Waka Mauja, Teh-palwal, Distt-faridabad, Haryana Admeasuring 200, SQ.YDS, East: PLOT OF MR.INDRAJ, West: DIGAR Thousand Nine Hundred Eighty Two Only as on 21-Apr-21 PLOT, North: HOUSE OF MR. LALA, South: RASTA All that part and parcel of residential/commercial property Land/ 23-Apr-21 25-Sep-21 Rs. 1185934/-Building/ Structure and fixtures situated at Property Falling Under

BABITA RAWAL (Co-Borrower) (A/c No.) L9001060117641881 VIJAY SINGH (Borrower), SURENDER SINGH (Co-Borrower & Mortgagor) (A/c No.) L9001060117894440 Narender Kumar (Borrower), SMT. CHANDAR KALI (Co-Borrower & Mortgagor) Rs. Eleven Lac Eighty Five Khewat No. 30/19/3 At Vill. Saran Th. Badkhal Dist.faridabad Harvana Thousand Nine Hundred Thirty Admeasuring 50 Sq. YD. East: PUBLIC WAY, West: OTHERS PROPERTY, Four Only as on 21-Apr-21 North: OTHERS PROPERTY, South: REMAINING PORTION 50 SQ YD. All that part and parcel of residential/commercial property Land/ 25-Sep-21 (A/c No.) L9001060115092302 23-Apr-21 PUNIT VERMA (Borrower & Mortgagor), Rs. 1133173/-Building/ Structure and fixtures situated at Shop No. 181, Vill. MUKESH VERMA (Co-Borrower), SMT. HEMA Rs. Eleven Lac Thirty Three Sayiadwada, Dist.- Faridabad, Haryana Admeasuring 13 Sq. Yds. East (Co-Borrower) Thousand One Hundred Seventy PART OF PROPERTY, West : PLOT NO. 180/3, North : ROAD, South

as on 15-May-21 Admeasuring 70 Sq. YD. East: OTHERS PROPERTY, West: RASTA, North : HOUSE OF MR. RANJIT, South : HOUSE OF SRI NANAK CHAND The borrower having failed to repay the amount, therefore notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein above mentioned table in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said (Act-2002) read with Rule 8 of the said rule on the date mentioned in the above table. "The borrower's attention is Invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets." The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to

> with The Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 In the matter of Scheme of Amalgamation and Arrangement between AIPL Hospitality Limited and Lilium Promoters Private Limited and Babbler Projects Private Limited and

the charge of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) for the amount and interest thereon mentioned in the above table.

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CHANDIGARH BENCH

COMPANY APPLICATION NO. 115/2021 in CA(CAA) No.10/Chd/Hry/2020(Disposed of)

In the matter of Sections 230-232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read

Three Only as on 02-Apr-21

15-May-21

Rs. 1157206/-

Rs. Eleven Lac Fifty Seven

housand Two Hundred Six Only

Florican Infrastructure Projects Private Limited and Finest Promoters Private Limited and AIPL Housing and Urban Infrastructure Limited (formerly known as AIPL Ambuja Housing and Urban Infrastructure Limited) and Advance India Projects Limited

their respective shareholders and creditors

ADVERTISEMENT OF NOTICE FOR THE WITHDRAWAL OF THE SCHEME OF

AMALGAMATION AND ARRANGEMENT

An application bearing CA No. 115/2021 in CA(CAA) No. 10/Chd/Hry/2020 under Rule 11 of NCLT Rules, 2016 (Application) seeking withdrawal of the Scheme of Amalgamation and Arrangement between AIPL Hospitality Limited (Applicant Company 1 / Transferor Company 1) and Lilium Promoters Private Limited (Applicant Company 2 / Transferor Company 2) and Babbler Projects Private Limited (Applicant Company 3 / Transferor Company 3) and Florican Infrastructure Projects Private Limited (Applicant Company 4 / Transferor Company 4) and Finest Promoters Private Limited (Applicant Company 5 / Transfer or Company 5) and AIPL Housing and Urban Infrastructure Limited (formerly known as AIPL Ambuja Housing and Urban Infrastructure Limited) (Applicant Company 6 / Demerging Company) and Advance India Projects Limited (Applicant Company 7 / Transferee Company / Resulting Company) and their respective shareholders & creditors (Scheme), as approved by the Board of Directors of Applicant Companies was filed before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench (Tribunal). Vide order made on the 13th day of August, 2021 (Order), the Applicant Companies have been directed to publish the present notice and the said application is now fixed for hearing before the Tribunal on the 08th day of October, 2021.

In case of any query, please contact the Company Secretary of the Applicant Company at telephone no. +91-92111 60000; Ext: 056 or via email at secretarial@aipl.com.

Authorised Authorised Authorised Authorised Authorised Authorised Authorised Signatory Signatory Signatory Signatory Signatory Signatory Signatory Babbler Projects Florican Infrastructure Finest Promoters AIPL Housing Advance India Lilium Promoters Private Limited Projects Private Limited Private Limited Hospitality and Infrastructure Projects Limited

Place: Gurugram

Summons for settlement of Issues, (O.V.R.1,5) IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE, [S.D.] S.C.S. No. 26/2016

Muskan Power Infrastructure Ltd.

Defendant,

423, Industrial Area-A, Ludhiana-141003, Punjab State WHERE above named plaintiff has suit against you for [as per attached copy of plaint]. You are

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD

interest th	ereon and penal interest, charges, costs etc. from		
Loan Account No.	Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/ Legal Representative(s)	Amount as on dated	Date of Symbolic Possession
	1. DIMPLE CHOPRA AND 2. KIRAN CHOPRA	Re	

NOTICE-CUM-ADDENDUM NO. 27

Change in the Key Personnel of Canara Robeco Asset Management Company Ltd.

All the Unit holders of Canara Robeco Mutual Fund are requested to take note of the following change

Age/Qualification **Brief Experience**

2. Change in the Fund Management Responsibilities of the schemes of Canara Robeco Mutual Fund All Unit holders of Canara Robeco Mutual Fund (CRMF) are requested to take note of the following

For and on behalf of Canara Robeco Asset Management Company Ltd. (Investment manager for Canara Robeco Mutual Fund)

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में

मै. डायलन टेडर्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-78, इंडस्ट्रियल एरिया,

पर्वतपुरा, अजमेर, राजस्थान में है, के मामले में।

एतदद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त निवमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनिवम, 2013 की धारा 14 के आंतर्गत केन्द्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिए इच्छक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 20 सितम्बर, 2021 के अनुसार कम्पनी को एक प्राईवेट लिपिटेड कम्पनी में रूपांतरित

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, (आरओसी भवन, रूपल पार्क, सोसाईटी के सामने, अंकृत बस स्टॉप के पीछे, नारणपुरा, अहमदाबाद-380013, गुजरात) में जमा करें या जमा करावें या पंजीकृत डाक से भेजें:

कते एवं के लिए डायलन ट्रेडर्स लिमिटेड नवीन माहेश्वरी (निदेशक) 学研報: 30.09.2021 DIN: 00378495

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - I, DELHI Case No.: OA No. 531/2020

M/s. OMID Engineering Private Limited & ORS. Defendants M/s. OMID Engineering Private Limited Plot No. 1-4, Industrial Area, Amb Distt., Una.

Himachal Pradesh-177203. E-mail- himgroups@gmail.com Also At.: D-9, Udyog Nagar, Rohtak Road, Delhi-110041 Sh. Ashok Raja S/o. Late Sh. Raja Takhat Mal R/o. 42/72, Punjabi Bagh, West, New Delhi-110026.

Sh. Shanti Swaroop Raja S/o. Late Sh. Raja Takhat Mal R/o. 42/72, Punjabi Bagh, West, New Delhi-110026. Smt. Meena Raja W/o. Sh. Ashok Raja R/o. 42/72, Punjabi Bagh, West. New Delhi-110026

ineteen Crores Twenty Four Lakh Forty Two Thousand Six Hundred Eleven and Fifty Nine Paisa serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before Ld. Registrar on 16.11.2021 at 10.30 A.M. (for further details kindly visit DRT website www.etribunal.gov.in Phone Number: 011-Take notice that in case of your failure to appear on the

Sd/ Authorised Signatory

above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence. Due to ongoing Pandemic Situation, all the matters will be taken up through Video Conferencing and for that purpose:-(i) All the Advocates/Litigants shall download the

(ii) "Meeting ID" and "Password" for the next date of hearing qua cases to be taken by `Registrar/Recovery Officer-I/ and Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e. "drt.gov.in" under the Public Notice Head (iii) In any exigency qua that, the Advocates/Litigants

can contact the concerned official at Ph. No. 011 23748473. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 24th September of 2021

> **Assistant Registrar** DRT-I. New Delhi

सूचना केन्द्र सरकार के कम्पनी पंजीयन

Date: 30th.09.2021

विभाग, कानपुर को संदर्भित सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लिमिटेड लायबिलीटी पार्टनरशिप (LLP) कानून (Act) 2008 के निमय 13(3) एवं 2009 नियमावली 17 के अधीन उक्त एल0एल0पी0 की सहयोगी कम्पनी "एएनआर डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया सी एंड एफ एलएलपी" - अपने निवर्तमान कार्यालय द्वितीय तल, अट्टालिका कॉम्प्लेक्स, 22, बी.एन. वर्मा रोड लखनऊ (यूपी) — 226001 को "उत्तर प्रदेश" से **''कर्नाटक''** राज्य में स्थानांतरित करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के कानपुर कार्यालय में याचिका दाखिल करने जा रही है। इस सन्दर्भ में वे व्यक्ति जिनका कोई भी प्रकरण एलएलपी के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित हो सकता हो, वह इस नोटिस के प्रकाशित होने के 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर संपूर्ण जानकारी के साथ अपनी उक्त आपत्ति एक हलफनामे के जरिये पंजीकृत डाक से रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के कानपुर कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। उक्त पत्र की प्रतिलिपि याचिकाकर्ता एलएलपी के उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी

प्रेषित करना अनिवार्य है। एएनआर डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया सी एण्ड एफ एलएलपी के लिए एवं द्वारा राकेश गुप्ता (नामित भागीदार) DIN: 00594450,

बी–163, निराला नगर, लखनऊ। दिनांक : 27.09.2021 स्थान : लखनऊ

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–।, दिल्ली चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग

नई दिल्ली-110001 ओ. ए नं. 548 / 2019 भारतीय स्टेट बैंक

मैसर्स प्रवीन तिवारी एवं अन्य ताशी लैंड डेवलपर्स प्रा. लि. (प्रतिवादी नं. 02)

517ए. 5वां तल. नारायण मंजिल. 23. बाराखंभा

रोड, सी.पी., नई दिल्ली केएनएस इंफ्राकॉन प्रा. लि., (प्रतिवादी नं.03) 517ए. 5वां तल. नारायण मंजिल. 23. बाराखंभा रोड, सी.पी., नई दिल्ली जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध

रुपये 83,85,679/- (रु. तिरासी लाख पिचासी हजार छः सौ उनासी मात्र) की वसूली हेत् एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 11-11-2021 को पूर्वा. 10.30 बजे माननीय न्यायाधिकरण के समक्षे उपरिधत होने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी की वेबसाइट www.etribunal.gov.in देखें) फोन : 011-23748473

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी

मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया जाएगा और उस उद्देश्य के लिए:-(i) सभी अधिवक्ता / पात्रगण "सिस्को वेबेक्स"

एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे; (ii) "रजिस्ट्रार/रिकवरी ऑफिसर-।/और रिकवरी ऑफिसर—।। द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए

'मीटिंग आईडी' और ''पासवर्ड'' अगली तिथि से एक दिन पहले डीआरटी के अधिकारिक पोर्टल अर्थात "drt.gov.in" के पब्लिक नोटिस हेड के अंतर्गत उपलब्ध होगी। (iii) किसी भी जानकारी हेत्, एडवोकेट्स/

पात्रगण संबंधित अधिकारी से फोन 011-23748473 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे हरताक्षर और इस न्यायधिकरण की मोहर के

तहत 15 सितम्बर, 2021 को दिया गया। न्यायाधिकरण के आदेशानुसार, कृते रजिस्ट्रार

प्रतिवादी उत्तरदाता आगे की पूछताछ के लिए निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्के कर सकते है। अमित के. दार, एलडी. रजिस्ट्रार, डीआरटी-।, नई दिल्ली, फोन: 011-23748473, ईमेल:

drt1delhi-dfs@nic.in

व्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनिय की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनांस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिय इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सुचना जारी कर ऋणधारकों को उन् जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ओं) में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतदृद्वारा ऋणधारकों के नेर्देश दिया जाता है कि मांग सुचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ यहां नीचे दर्शाई गई राशि का इस सुचना के प्रकाशन

सामन्ता (प्रॉस्पेक्ट नं. 935917) | (रु. सात लाख तीन हजार) एक सौ| नं. जीएच 04 जीएच 05, निजी | खतेदारी योजना, ग्राम वाटिका, तह. संगनेर

की जोखिमों एवं लागत पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लाग होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाः करेगा। अधिक विवरणों के लिये कृपया शाखा कार्यालयः आईआईएफएल एचएफएल एम्बीशन टॉवर, प्लॉट नं. डी–46–बी, आफिस नं. 307 312 मलान का चौराहा, अग्रसेन सर्किल, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001 में प्राधिकृत अधिकारी अथवा कॉर्पोरेट कार्यालय आईआईएफएल टावर, प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्पर्क करें। हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लि

अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत ई-नीलामी बिक्री नोटिस नेररत की जाती है। दिनांक 28.10.2021 को निर्धारित ई-नीलामी बिक्री के लिए निम्नलिखित संपत्तियों को 17.09.2021 को जनसत्ता समाचार पत्र, लखनऊ संस्करण में प्रकाशित किया गया था। **ऋणीः मेसर्स वीनस** निर्माण प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U45201UP2006PTC031951 PAN: AACCV3116F), पंजीकत कार्यालयः प्लॉट सं0 27, गुलजार

केनरा बैंक 🕁 Canara Bank

मिड कार्पोरेट शाखाः विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

सार्वजनिक सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय

आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन

कॉलोनी, चिनहट, लखनऊ-226028 (उ०प्र०)। अचल सम्पत्ति का विवरण प्लॉट सं0 बी4/202, विशाल पूर्वः खाली प्लॉट सं0 4 / 203 खण्ड, गोमती नगर, लखनक, **पश्चिम:** 12.0 मीटर चौडी रोड क्षेत्रफलः 361.37 वर्ग मीटर, 9.0 मीटर चौडी रोड

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

PUBLIC NOTICE

Yogesh Chand Gupta S/o Late Shri Shiv Prakash Gupta R/o D-83, IInd Floor Kamla Nagar, Delhi-110007 I am the registered share holder of following

275 shares of Torrent Power Ltd. under Folio No. 0012059 Shares Certificate No. 12059 with Distinctive Nos. at 43317539 to 43317813. have lost the above Share Certificates

and they were not annexed with any transfer deed.

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be

'IMPORTANT

held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies. associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

कार्यालय नगर निगम कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

Executive Engineer (Civil)

क्रमांकः ननिको-द/निर्माण/2021/390-403

Shahmina Road, Chowk, Lucknow-226003

Short Term tender Notice

civil works in different departments of KGMU from the registered

Contractors of the KGMU. Tenders can be purchase upto dt. 21.10.2021 at

1.00pm and shall be opened on same day at 3.30pm. The detail of tender

notice and terms and conditions can be viewed at website

www.Kgmcindia.edu and any other informations can be obtained from the

office of Executive Engineer (Civil) during all working days.

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या: 19/2021-22

नगर निगम कोटा (उत्तर/दक्षिण) द्वारा विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों के "A", "AA श्रेणी एवं नगर निगम कोटा (उत्तर/दक्षिण) में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों एवं अन्य सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निम्नानुसार ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। कार्यों की अनुमानित लागत, टेन्डर बेचे जाने, प्राप्त करने की तिथि व निविदा की शर्तें इत्यादि नगर निगम की वेबसाईट http://sppp.raj.nic.in, www.kotamc.org,

http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता नगर निगम, कोटा-दक्षिण

केन्द्र सरकार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली के समक्ष

सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13

की उप-धारा (3) के विषय में सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के विषय में और **मेसर्स मैक्स फार्माशिया** (**इंडिया) एलएलपी** जिसका पंजीकृत कार्यालय एस-67, एफ.एफ., फेज-1, बादली, बादली औद्योगिक बादली

क्षेत्र नई दिल्ली, दिल्ली 110042 सामान्य जनता को एतदुद्वारा सुचना दी जाती है कि

एलएलपी द्वारा पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र **दिल्ली** से **तमिलनाडू** राज्य में हस्तांतरित करने हेत् अनमति मांगने के लिए सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, दिल्ली को याचिका करना प्रस्तावित है। एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी शिकायत

विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या भेजे जाने का कारण डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति याचिकाकर्ता एलएलपी के ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है:

मैक्स फार्माशिया (इंडिया) एलएलर्प आयुष श्रीश्रीमल (नामित) भागीदार)

डीआईएन संख्या 07108553 पताः 4 बी हेरिटेज अपार्टमेंट्स, चौथा क्रॉस ओरम्स रोड. किलपौक, चेन्नई तमिलनाडु 600010

दिनांक: 01.10.2021

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में } केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

आरुशी कंस्टक्शंस एंड इनवेस्टमेंटस प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U74899DL1990PTC039649) जिसका पंजीकृत कार्यालय: 621 / 9 पहली मंजिल, 18 क्वार्टर विश्वास नगर शाहदरा, नई दिल्ली-110032 में हैं, के मामले में

एतदद्वारा सार्वजनिक सुचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'उत्तर प्रदेश राज्य' मे स्थानांतरित करने के लिए **सोमवार, 27 सितंबर** 2021 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित

जना स्मॉल फाइनांस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) प्रधान कार्यालयः जना स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड-द फेयरवे, भूतल एवं

प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क, चल्लाघट्टा, बेंगलुरू-560071

स्वर्णाभूषणों की नीलामी के लिये सार्वजनिक सूचना नीचे वर्णित ऋणधारकों को कई बार स्मरण दिलाये जाने के बावजूद निर्धारित समय में ऋणों का भुगतान करने तथा स्वर्णाभूषणों को विमोचित करने में विफल रहे हैं। नीचे सूचीबद्ध ऋणधारकों द्वार उक्त ऋणखाताओं के अंतर्गत बंधक रखी गई स्वर्णाभूषण/ गहनों की 7.10.2021 को 10.30 बजे पूर्वा. में हमारी शाखा परिसरों में सार्वजनिक/ ऑनलाइन/ निजी नीलामी में बिक्री की जायेगी। इसमें भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से आग्रह है कि शाखा में सम्पर्क करें। बैंक को चाहे जो भी हो, उसक कोई भी कारण बताये बिना किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार है। कृपय ध्यान रहे कि यदि नीलामी उसी दिन पुरी नहीं होती है तो वह उसी नियमों एवं शर्तों पर अगले दिवस को आयोजित होगी। यदि ग्राहक की मृत्यु हो चुकी है तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामिनी/ विधिक उत्तराधिकारी पर लागू होगी। एतदुद्वारा ऋणधारकों को अधिसुचित किया जाता है कि नीलार्म की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर बंधव स्वर्णाभूषणों की बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष देयता यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत के साथ वसूर की जायेगी। किसी भी प्रकार की पूछताछ तथा नियमों एवं शर्तों के लिये शाखा में सम्पर्क करें। शाखा के पते के विवरणों के लिये www.janabank.com देखें।

ऋण खाता सं. ऋणधारक/सह-ऋणधारक का नाम स्वर्णाभूषणो 32898730015831 सितारा 32898730015910 32898730016465 63.6 रचना त्यागी 32898730016478 10.05 5 32898730016821 लक्ष्मी एल

5.39 जना स्मॉल फाइनांस बैंक लि., 1ला तल, बिल्डिंग नं. 10-ए, बलरामनगर, लोनी, गाजियाबाद-201102, भारत 6 | 33918730000970 | हेमलता देवी 14.74 7 33918730000996 हेमलता देवी 10.37

जना स्मॉल फाइनांस बैंक लि.,1ला तल, गार्डन व्यू अपार्टमेन्ट, दिल्ली मेरठ रोड, उत्त प्रदेश-250002, भारत

जना स्मॉल फाइनांस बैंक लि., भृतल, नगर पालिका नं. 3/2120, खान आलमपुरा, हदूद

नगर पालिका, जनकनगर, सहारनपुर-247001, भारत

पंजाब मेशनल बैंक U punjab national bankthe name you can BANK upon! मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली, पॉकेट - ई, मयूर विहार, फेज-।।, दिल्ली-110091

ईमेलः cs8075@pnb.co.in, फोन नं. 011-22779758, 22785289

कब्जा सूचना प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के तहत जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हिट प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली (पूर्व में** आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम तल, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-। **दिल्ली—110091** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कर्जदार** श्रीमती गीता पत्नी श्री नवीन कर्दम एवं श्री नवीन कर्दम (उधारकर्ता) और श्री शैलेंद्र कुमार विमल पुत्र श्री चंदर पाल सिंह (गारंटर) को मांग नोटिस दिनांक 03.04.2021 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 29,08,627.83 (रु. उनतीस लाख आठ हजार छः सौ सत्ताईस और **पैसे तिरासी मात्र) और भविष्य का ब्याज, खर्चें और अन्य प्रभार इत्यादि सहित** उक्त नोटिस की

प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भूगतान करने को कहा गया था। कर्जदार/गांरटर्स उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदृद्वार कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि के अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक 27.09.2021 को कब्जा ले लिया

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत स्रक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है वि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन—देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन—देन **पंजाब** नैशनल बैंक, मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली (पूर्व में आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम तल, पॉकेट–ई, मयूर विहार फेज–।।, दिल्ली–110091, के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू. **29,08,627.83 और भविष्य का ब्याज, इत्यादि सहित** के अधीन होगा

अचल सम्पत्तियों का विवरण उम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी प्रथम तल और द्वितीय तल (बिना छत अधिकार के) प्रत्येक क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. 16/472–। का हिस्सा कुल भूमि क्षेत्रफल 200 वर्ग गज में से, मिलिट्री रोड, बापा नगर, करोल बाग, नः दिल्ली—110005 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती गीता पत्नी श्री नवीन करदाम के नाम पर है। सब रजिस्ट्रार—।।।, नई दिल्ली / दिल्ली के कॉर्यालय में पंजीकृत, बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 16056

पेज नं. 11 से 19, क्र.सं. 4505, दिनांकित 17.06.2015 दिनांक : 27.09.2021, स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक पंजाब मेशनल बैंक 👅 punjab national bank

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली, पॉकेट - ई, मयूर विहार, फेज-11, दिल्ली-110091

ईमेलः cs8075@pnb.co.in, फोन नं. 011-22779758, 22785289

कब्जा सूचना प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के तहत जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **पंजाब नैशनल बँक, मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली (पूर्व में** आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम तल, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-।।, **दिल्ली—110091** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002

के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार श्री मन मोहन सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, श्रीमती परमजीत पत्नी श्री मन मोहन सिंह, श्री मनमीत सिंह पुत्र श्री भगत सिंह और श्री भगत सिंह पुत्र श्री शर्म सिंह (उधारकर्ता) और श्रीमती चरणजीत कौर पत्नी श्री भगत सिंह (गारंटर) को मांग नोटिस दिनांक 01.07.2021 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 31,36,234/- (रु. इकतीस लाख छत्तीस हजार दो सौ चौतीस मात्र) और भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भूगतान करने को कहा गया था। कर्जदार / गांरटर्स उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वार

कर्जदार तथा सर्वसाघारण को सूचित किया जाता है कि के अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक 28.09.2021 को कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **पंजाब** नैशनल बैंक, मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली (पूर्व में आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम तल, पॉकेट—ई, मयूर विहार फेज—।।, दिल्ली—110091, के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू. 31.36.234/- और भविष्य का ब्याज, इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी फ्लैट सम्पूर्ण द्वितीय तल, (छत के अधिकार सहित) प्लॉट नं. ३ / ६०, निति खंड— । । ।, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल ७०. 711 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री मन मोहन सिंह पुत्र श्री भगत सिंह के नाम पर है। सब रजिस्ट्रार–IV, गाजियाबाद, यू.पी. के कॉर्यालय में पंजीकृत, बुक नं. 1, जिल्द नं. 19765,

12मी. चौडी रोड

डलाहाबाद-211002, भारत जना स्मॉल फाइनांस बैंक लि., नं. 100, 1ला तल, न्यू आर्य नगर,

जना स्मॉल फाइनांस बैंक लि., 326 ए/167, बाई का बाग, इलाहाबाद-211003, भारत

22.12 जना स्मॉल फाइनांस बैंक लि., 1ला तल, एच नं. 543, कोतवाली रोड, मोहल्ला बंश, गव. इन्टर कॉलेज के सामने. देवरिया-274001, भारत जना स्मॉल फाइनांस बैंक लि., भूतल, ''अरुणदीप बिल्डिंग'' नं. डी-45, पॉकेट-डी, राजनगर डिस्टिक्ट सेन्टर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001, भारत

गंगारानी, तहसील पंडरौना, कुशीनगर जिला, उत्तर प्रदेश-274304, भारत जना स्मॉल फाइनांस बैंक लि., ऊपरी भूतल, नं. 120-सी, डौडपुर हाइवे एनएच-29, गोरखपुर-27300

जना स्मॉल फाइनांस बैंक लि., भूतल, खाता नं. 2045, प्लॉट नं. 2357, छावनी, पडौना, टप्पा पाकाड्

स्थानः उत्तर प्रदेश हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी

जना स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड तिथि: 01.10.2021

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली, पॉकेट - ई, मयूर विहार, फेज-।।, दिल्ली-110091 ईमेल: cs8075@pnb.co.in, फोन नं. 011-22779758, 22785289

कब्जा सूचना प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के तहत

कर्जदार / गांरटर्स उक्त राशि का भगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदहारा कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि के अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक 27.09.2021 को कब्जा ले लिया

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत स्रक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली (पूर्व में आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम तल, पॉकेट—ई, मयूर विहार फेज—।।, दिल्ली—110091, के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू.

यह सम्पत्ति श्रीमती सुनिता गृप्ता पत्नी श्री विजय कुमार गृप्ता के नाम पर है। सब रजिस्ट्रार-IV A. शाहदरा नई दिल्ली / दिल्ली के कॉर्यालय में पंजीकृत, बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 827, पेज

र्न. 133 से 141, क्र.सं. 3662, दिनांकित 04.08.2010 चौहडी : उत्तर में - सम्पत्ति नं, 1/4450/2, पश्चिम में - सम्पत्ति नं, 1/4449, दक्षिण में - सम्पत्ति नं 1 / 4450 / बी, पूरव में — 10फीट चौडी गली

दिनांक : 27.09.2021, स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब मेशनल बैंक 🕒 punjab national bank

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली, पॉकेट – ई, मयूर विहार, फेज–11, दिल्ली–110091 ईमेलः cs8075@pnb.co.in, फोन नं. 011-22779758, 22785289

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम तल, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-11, दिल्ली-110091 का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित घारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कर्जदार मैसर्स** मेडिमैक्स फार्मा एंड सर्जिकल क.-प्रोपराइटर श्री मनीष जैन पुत्र श्री कंवर सैन जैन (उधारकर्ता) और श्रीमती रुक्मणी जैन पत्नी श्री कंवर सैन जैन (गारंटर) को मांग नोटिस दिनांक 01.07.2021 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 38,03,755.59 (रु. अंडतीस लाख तीन हजार सात सौ पच्चपन और पैसे उनसठ मात्र) और भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार **इत्यादि सहित** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा

कर्जदार / गांरटर्स उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सुधित किया जाता है कि के अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक 27.09.2021 को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि

वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **पंजाब** नैशनल बैंक, मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली (पूर्व में आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम तल, पॉकेट-ई, मयुर विहार फेज-।।, दिल्ली-110091, के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू. 38,03,755.59 और भविष्य का ब्याज, इत्यादि सहित के अधीन होगा।

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी फ्लैट, प्रथम तल, निर्मित रिहायशी सम्पत्ति कॉलोनी जिसे ईस्ट आजाद नगर कहते हैं, गली नं, 5, दिल्ली–110051 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती रूकमनी जैन पत्नी श्री के.एस जैन के नाम पर है। सब रजिस्ट्रार–VIII, नई दिल्ली / दिल्ली के कॉर्यालय में पंजीकृत, बुक नं. 1, जिल्द नं. 3818, पेज नं. 51 से 56, क्र.सं. 16895 दिनांकित 12.12.2008, चौहदी : उत्तर में — शेष सम्पत्ति का हिस्सा, दक्षिण में — सम्पत्ति

www.readwhere.com

60 दिनों के भीतर भुगतान करें। ऋणधारकों, मांग सूचना की तिथि को बकाया राशि तथा ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिये प्रस्तावित प्रतिभूति का विवर

उत्तरः स्वामीः श्री अबुसाद अहमद ।

दक्षिणः मकान सं0 4 / 201 इसलिए यह बिक्री वापस लेने के लिए है।

JOHAL INVESTMENTS LTD. King George's Medical University U.P., Lucknow

RZF1, SHOP No.-5, VIJAY ENCLAVE, SHIV MAIN MARKET, NEW DELHI - 110045 AUCTION NOTICE / निलामी सूचना JOHAL INVESTMENTS LTD. Whereas, The Authorized officer of Johal Investments limited, hereby gives to the customers and the public in general that the

espective banks will conduct the private sale/ auction of the gold for the underlying loan numbers / GL numbers when deemed necessary since the customer had failed to repay the amount within the due date or had failed to remit the margin amount required as per the communication sent by the bank or their authorized representatives Auction date 4th or 8th October 2021 evening 4:30pm, and place Johal Investments Ltd WZ-184-D. Palam Gpal Chakkar, Palam, New Delhi - 110045. Please contact 9990106527 for more information. JOHAL INVESTMENTS LTD. जबकि जोहाल इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी एतद्वारा ग्राहकों और जनता को सामान्य रूप से सुचित करते

संचालन करेगी क्योंकि ग्राहक देय तिथि के भीतर राशि चुकाने में विफल रहा है। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9990106527 पर संपर्क करें। निलामी तिथि 4 व 8 अक्टूबर 2021 समय 4.30 सायं और स्थान जोहाल इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड डब्लूजेड–184डी, पालम गोल चक्कर, पालम, नई दिल्ली–110045. अधिक जानकारी के लिए फोनः 9990106527 LIST OF GOLD LOAN NUMBER / स्वर्ण ऋण लोन संख्या PALAM BRANCH: JIL/GL/PLM/40008, JIL/GL/PLM/40033, JIL/GL/PLM/40034 BUDDH VIHAR: JIL/GL/W1/50082, JIL/GL/W1/50025, JIL/GL/W1/50087, JIL/GL/W1/50113, JIL/GL/W1/50100,

हैं कि संबंधित बैंक जब आवश्यक समझेगी तब अंतनिहित लोन नंबर/जीएल के लिए सोने की निजी बिकी/निलामी का

JIL/GL/W1/50114, JIL/GL/W1/50123, JIL/GL/W1/50130, JIL/GL/W1/50133, JIL/GL/W1/50137, JIL/GL/W1/50158, JIL/GL/W1/50181, **VIJAY ENCLAVĖ**: JIL/GL/VJ/20038, JIL/GL/VJ/20014, BHAJANPURA: JIL/GL/BJN/60007, JIL/GL/BJN/60017, JIL/GL/BJN/60012, JIL/GL/BJN/60022, JIL/GL/BJN/60023 .JIL/GL/BJN/60021, JIL/GL/BJN/60026, JIL/GL/BJN/60027, JIL/GL/BJN/60029, JIL/GL/BJN/60031, JIL/GL/BJN/6003 JIL/GL/BJN/60035, JIL/GL/BJN/60037, JIL/GL/BJN/60044, JIL/GL/BJN/60048, JIL/GL/BJN/60049, JIL/GL/BJN/60059 JIL/GL/BJN/60062, JIL/GL/BJN/60063, JIL/GL/BJN/60070, JIL/GL/BJN/60075, JIL/GL/BJN/60076, JIL/GL/BJN/60077 JIL/GL/BJN/60074, JIL/GL/BJN/60080, JIL/GL/BJN/60082, JIL/GL/BJN/60088, JIL/GL/BJN/60100, JIL/GL/BJN/60113 JIL/GL/BJN/60119, JIL/GL/BJN/60128, JIL/GL/BJN/60155, JIL/GL/BJN/60157, JIL/GL/BJN/60159, JIL/GL/BJN/60161 JIL/GL/BJN/60162, JIL/GL/BJN/60163, JIL/GL/BJN/60164, JIL/GL/BJN/60165, JIL/GL/BJN/60166, JIL/GL/BJN/60172 JIL/GL/BJN/60174, JIL/GL/BJN/60175, JIL/GL/BJN/60176, JIL/GL/BJN/60177, JIL/GL/BJN/60178, JIL/GL/BJN/60179 JIL/GL/BJN/60181, JIL/GL/BJN/60184, JIL/GL/BJN/60185, JIL/GL/BJN/60188, JIL/GL/BJN/60183, JIL/GL/BJN/60205 JIL/GL/BJN/60195, JIL/GL/BJN/60198, JIL/GL/BJN/60201, JIL/GL/BJN/60203, JIL/GL/BJN/60206, JIL/GL/BJN/60208 JIL/GL/BJN/60069, JIL/GL/BJN/60090, JIL/GL/BJN/60197, JIL/GL/BJN/60243, JIL/GL/BJN/60256, JIL/GL/BJN/60308

> अधिकृति अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज जोहल इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड

> > कृते मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड

हस्ताक्षर

कम्पनी सचिव

JOHAL INVESTMENTS LTD. मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड

JIL/GL/BJN/60375, JIL/GL/BJN/60380, JIL/GL/BJN/60326, JIL/GL/BJN/60329, JIL/GL/BJN/60383, JIL/GL/BJN/60403

(CIN: L24231HP1984PLC006028) पंजीकृत कार्यालय : मोरपेन विलेज, नालागढ़ रोड, निकट बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश - 173 205 फोन : +91-1795-266401-03, 244590, फैक्स : +91-1795-244593 वेबसाइट : www.morepen.com, ई-मेल : investors@morepen.com

शेयर प्रमाणपत्रों के खोने की सचना एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र के खोने या मिसप्लेस या चोरी होने के रूप में रिपोर्ट किया गया है और इसलिए पंजीकृत शेयरधारकों ने डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी कार्च के जिए अनुग्रेश किया है।

फोलियो संख्या	प्रमाणपत्र संख्या	शेयरों की विशिष्ट संख्या		शेयरों की संख्या	शेयरधारकों का नाम
		से	तक		700-000
104792	15811	362714753	362715548	796	बिमला शर्मा एन के शर्मा
148092	59111	411735949	411736611	663	जैनुलाबेदीन जुजर जावी शमीम जुजर जावी
148295	59314	411942303	411942965	663	शमीम जुजर जावी जुजर मोहसिन जावी
157630	68649	421795262	421796026	765	ऋषि पी श्रॉफ प्रदीप टी श्रॉफ
157395	68414	421527229	421528260	1032	नीरज पी श्रॉफ पटीप टी श्रॉफ

किसी व्यक्ति द्वारा उक्त शेयरों के संबंध में कोई दावा/उपरोक्त उल्लिखित शेयरधारक के पक्ष में डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में किसी भी आपत्ति के मामले में उसे/उन्हें इस सूचना के प्रकाशन तिथि के 15 दिन के भीतर अपने दावे या आपत्ति पंजीकृत कार्यालय में दर्ज करनी चाहिए। उसके बाद उक्त प्रमाण पत्र के संबंध में कंपनी द्वारा कोई दावा प्राप्त नहीं किया जायेगा और डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सामान्य जन को उपर्युक्त प्रमाण पत्र के साथ किसी भी तरह की

इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

डीलिंग से सावधान किया जाता है।

स्थान: गुरुग्राम

दिया जाता है।

एल. नं. :

श्रीमती मंजू

स्थान : राजस्थान

तिथि : 01.10.2021

दिनाकः 30/09/2021

equitas (पूर्व का इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय : नं. 769, स्पेंसर प्लाजा, चौथी मंजिल, फेज-II, अन्ना सलाई, चेन्नई, तमिलनाडू-600 002. # 04442995000, 04442995050

प्रतिभृति हित अधिनियम, 2020 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत सूचन रतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार/रों ने इक्विटास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (ईएचएफएल)/इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड (ईएफएल)/इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लि. से ऋण लिया है। इसी बीच, माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा आदेश दिनांक 06.06.2016 के माध्यम से 2016 की सीपी सं. : 119 से 121 में समामेलन की योजना के अनुसार मैसर्स इक्विटास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का समामलेन मैसर्स इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड के साथ हो गया। कथित समामेलन के अनुसार इक्विटास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के समस्त अधिकार एवं उत्तरदायित्व इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड के पास हैं। आपको यह पुनः सूचित किया जाता है कि रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, चेन्नई द्वारा जारी प्रमाणपत्र के तहत मैसर्स इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड का नाम परिवर्तित होकर मैसर्स इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हो गया था और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग के प्रकार्यों को संचालित करने के लिए इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को दिनांक 30.06.2016 को एक लाइसेंस जारी किया था। कथित ऋणकर्ता/ओं के द्वारा अपने ऋण के समतुल्य मासिक किश्तें (ईएमआई) अदा करने में असफल रहने के कारण उनके खातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार गैर–निष्पादन आस्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। कर्जदार(रों) ने अचल सम्पत्ति/यों की प्रतिभति प्रावधानित की है जिसका विवरण निम्नलिखित हैं। कर्जदार/रों द्वारा ईएसएफबी को यथातिथि ऋण तथा बकाया राशियों एवं देयताओं के विवरण भी नीचे अंकित हैं। एतद्वारा कर्जदार⁄रों तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि ईएसएफबी का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कर्जदार(रों) के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। यदि निम्नलिखित कर्जदार अपने नामों के सम्मुख अंकित बकायों का भुगतान इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर करने में असफल रहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी सम्पत्ति/यों पर कब्जे तथा उनकी बिक्री करने की शक्ति सहित सरफाएशी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रतिभृति लेनदार को प्रदत्त शक्तियों में से एक या एक से अधिक शक्तियों का उपयोग करेगा। जनसामान्य को नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों के साथ संव्यवहार न करने का परामर्श

कर्जदार(रों)⁄जमानती(यों) का नाम (शाखा का नाम)	मॉग सूचना की तिथि एवं राशि	प्रतिभूत आस्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)
शाखा : राजसमन्द एल. नं. : SERJMND0190972 कर्जदार : भेरू लाल कुमावत, सह-कर्जदार : श्रीमती डाली बाई, सुश्री केशर कुमावत, श्री सुरेश चन्द्र कुमावत	13/07/2021 तथा रु. 267546/-	अराजी नं. 1116, मकान नं. 197, चावंडा माता मंदिर के पास, गांव बमनियाकला, ग्राम पंचायत बामनियाकला, पंचायत समिति और तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद (राजस्थान) पर स्थित गैर कृषि सम्पत्ति आवासीय सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 561 वर्ग फुट, उस पर सभी वर्तमान और भविष्य की अधिरचना के साथ। उत्तरः मंगीलाल/मोड़ा कुमावत का घर, दक्षिणः सोहन लाल पुत्र उनकार कुमावत का घर, पूर्व : देविकशन का घर/नारु कुमावत, पश्चिमः सार्वजनिक मार्ग, मापः 561 वर्ग फुट। रेलमागरा के उप-पंजीकरण जिले और राजसमंद (राजस्थान) के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित
शाखा : अलवर एल. नं. : SEIBAWR0289899 कर्जदार : श्री मोहम्मद इमरान खान, सह–कर्जदार : श्रीमती उमरबाई	12.07.2021 तथा रु. 5,55,539.82/-	गैर-कृषि संपत्ति आवासीय सम्पत्ति का समस्त भाग, पट्टा नंबर 80, पुस्तक क्रमांक 07, ग्राम शेकपुर, ग्राम पंचायत कोलगांव, पंचायत समिति किशनगढ़ बास, जिला, अलवर(राज) 301026 में स्थित, क्षेत्रफल 160 वर्ग गज/1440 वर्ग फीट। यहां सभी वर्तमान और भविष्य के अधिरचना के साथ तथा सीमाएँ उत्तरः राहक का घर; दक्षिण : पहाड़; पूर्व : कल्लू का घर और कॉमन रास्ता; पश्चिम : शमशेर का घर। माप : 561 वर्ग फुट, सिमिति किशनगढ़ बास के उप निबंधन जिले एवं अलवर का पंजीयन के अंतर्गत।
शाखा : राजसमन्द एल. नं. : SERJMND0266792 कर्जदार : श्री श्यामा कुंवर, सह-कर्जदार : श्री दुले सिंह	12.07.2021 तथा रु. 3,83,855.15/-	अराजी नं. 3937, हाउस नंबर 805 ग्राम थानपुरा, ग्राम पंचायत जवाद, पंचायत मावली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राजस्थान) 313204 पर स्थित गैर कृषि संपत्ति आवासीय संपत्ति का सम्पूर्ण भाग। माप 864 वर्ग फुट, उस पर सभी वर्तमान और भविष्य के अधिरचना के साथ सीमाएँ : पूर्व : खाली भूमि; पश्चिमः रास्ता; उत्तरः सार्वजनिक; दक्षिणः फतेह सिंह जी
शाखा : चित्तौड़गढ़	23/08/2021	अराजी नंबर 2/3 मकान नं. 29, जाटो का मोहल्ला, ग्राम - रूप पुरा ग्राम पंचायत शादी

23/08/2021 पंचायत समिति गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में गैर-कृषि संपत्ति एल. नं. : SECITOR0230759 आवासीय संपत्ति का सम्पूर्ण भाग, उक्त संपत्ति का माप क्षेत्रफल 2142 वर्ग फुट, उस पर कर्जदार : रतन लाल. रु. 381139/-सभी वर्तमान और भविष्य की अधिरचना के साथ। सीमाएँ उत्तर : भेरू लाल का मकान, सह–कर्जदार : प्रेम देवी दक्षिणः किशन लाल का घर, पूर्वः शंभू लाल का घर, पश्चिमः सड़क मापः 2142 वर्ग फुट,

सम्पत्ति के ऋण अनुबन्ध-सह-बंधक समझौते के तहत, गंगरार उप-पंजीकरण जिला और चित्तौड़गढ़ के पंजीकरण जिले (राजस्थान) में स्थित। शाखा : चित्तौड़गढ़ 06/09/2021 गैर-कृषि संपत्ति आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, मकान नंबर 01, नाथ मोहल्ला, ग्राम पंचायत भोपालोई पंचायत समिति निबाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज) में स्थित। माप क्षेत्रफल 2520 वर्ग SECITOR0187185 फीट में, उस पर सभी वर्तमान और भविष्य के अधिरचना के साथ। सीमाएँ : उत्तर: आवासीय रु. 381594/-कर्जदार : राजेश नाथ. भूमि, दक्षिणः मुकेश नाथ का मकान, पूर्वः रोड, पश्चिमः पोखर डांगी की अराजी। सह-कर्जदार : मापः 2520 वर्ग फीट निम्बाहेड्। के उप-पंजीकरण जिले के भीतर और चित्तौड़गढ़ के

पंजीकरण जिले (राजस्थान) में स्थित।

अधिकृत प्राधिकारी इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पेज नं. 237 से 286, क्र.सं. 3304, दिनांकित 31.01.2012 चौहद्दी : उत्तर में — प्लॉट नं. 59, पश्चिम में — प्लॉट नं. 1, दक्षिण में — 100 चौडा रोड, पूरब में दिनांक : 28.09.2021, स्थान: दिल्ली प्राधिकत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंव

अचल सम्पत्तियों का विवरण नं. 164—ए, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, खसरा नं. 1030 / 301—302, गाँव घाँडली, इलाका शाहदरा,

दिनांक : 27.09.2021, स्थान: दिल्ली

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों (इक्कीस दिनों) के अन्दर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली को

संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है ।

पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें। 621 / 9 पहली मंजिल, 18 क्वार्टर विश्वास नगर शाहदरा, नई दिल्ली-110032 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से आरुशी कंस्ट्रक्शंस एंड इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक: 30.09.2021 राजीब गुलाटी (निदेशक) डीआईएन: 00497136

भूतल, नं. बी -16, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, सिविल स्टेशन

पंजाब मेशनल बैंक 🚺 punjab national bank

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पूनर्गठन एवं प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली (पूर्व में आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा) सीएससी प्रथम तल, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-।। दिल्ली—110091 का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार मैसर्स लुधियाना ऑटो सप्लाई कं.—प्रोपराईटर श्री विजय कुमार गुप्ता (उधारकर्ता) और श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री विजय कुमार गुप्ता (गारंटर) को मांग नोटिस दिनांक 05.07.2021 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 38,13,650.81 (रु. अडतीस लाख तेरह हजार छः सौ पचास और पैसे इक्यासी मात्र) और भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त

नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भूगतान करने को कहा गया था।

38,13,650.81 और भविष्य का ब्याज, इत्यादि सहित के अधीन होगा

कब्जा सूचना प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के तहत जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ईस्ट दिल्ली (पूर्व में

नं. 166, पुरब में - गली प्राधिकत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक